

Covid-19 जैसी विशेष परिस्थिति में बिहार के बच्चों को सीखने में सहयोग हेतु विकसित वर्कशीट

घर में कौन सी चीजें बहुत दिन छोड़ देने पर भी पूर्णतः उपयोगी या आंशिक उपयोगी या अनुपयोगी हो जाती है ?

क्रम सं.	वस्तुएं	पूर्णतः उपयोगी	आंशिक उपयोगी	अनुपयोगी
1.	चीनी			
2.	तेल			
3.	बिस्कूट			
4.	ब्रेड			
5.	गुड़			
6.	नमक			
7.	दाल			
8.	सब्जी			
9.	आलू			
10.	हरी सब्जी			
11.	आटा			
12.	टमाटर			
13.	चावल			
14.	दूध			
15.	अण्डा			
16.	मिट्टी के बरतन			
17.	टेबूल			
18.	फ्रिज			
19.	टी.वी			
20.	मिठाई			